

संपादकीय

सलाह का सहारा

महामारी संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दम तोड़ते लोगों की खबरें हमें विचलित करती हैं। निस्संदेह तंत्र की चूक और समय रहते संकट का आकलन न कर पाना इस महामारी को भयावह बना गया। जो अस्पताल सामान्य दिनों में ही मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं दे पा रहे थे, उनसे महामारी में उपचार की उम्मीद करना ही बेमानी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों के स्तर पर भी यह बताने की चूक हुई है कि इस नयी और अनजान बीमारी से संक्रमित होने पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जीवन कैसे बचे। गाहे-बगाहे रोग को लेकर तमाम बेसिर-पैर की खबरें आती हैं। लोग उन्हें सच मानकर जरूरी दवाओं को जमा करना शुरू कर देते हैं। दूसरे गंभीर रोगों की दवाइयां और इंजेक्शन को कोरोना उपचार में वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल करने मात्र से उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की भी यही वजह थी। आखिर भय-असुरक्षा के माहौल में जनता किस दिशा में चले, यह प्रामाणिक जानकारी देने वाला कोई नहीं था। कायदे से तो रोज चिकित्सा मामलों के विशेषज्ञों द्वारा देश की जनता को भ्रम-भय से बाहर निकालने की प्रामाणिक जानकारी दी जानी चाहिए थी। अब जब देश में रोज संक्रमितों का आंकड़ा सवा तीन लाख पार कर रहा है, कोरोना के उपचार को लेकर एम्स, आईसीएमआर, कोविड-19 टास्क फोर्स, ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की नयी गाइड लाइन्स सामने आई हैं, जिसमें कोरोना के वयस्क मरीजों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें रोगियों को माइल्ड, मॉडरेट और गंभीर श्रेणी में बांटा गया है। माइल्ड श्रेणी में वे रोगी आएं जो हल्के संक्रमण में तो हैं, मगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। मॉडरेट श्रेणी में वे आएं, जिनके कमरे की हवा में ऑक्सीजन का स्तर 93 से 90 के बीच है। वहीं गंभीर श्रेणी में वे आएं, जिनका ऑक्सीजन स्तर जबसे प्रतिशत से कम है।

दरअसल, हल्के संक्रमण वाले रोगियों को घर पर एकांतवास में रहने, बचाव के उपाय अपनाने तथा चिकित्सीय परामर्श लेने की सलाह दी गई। मध्यम श्रेणी को ऑक्सीजन सपोर्ट के लिये वाई में भर्ती होने की सलाह दी गई है। मरीज के गंभीर होने पर चेस्ट सीटी स्कैन और एक्सरे की सलाह भी दी गई है। वहीं गंभीर श्रेणी के मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने तथा रेस्पिरैटरी सपोर्ट देने का परामर्श है। दरअसल, हाल के दिनों में साठ साल से अधिक उम्र के जीवन्तवैली के रोगों से पीड़ित रोगी संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित हुए। कमोबेश इसी वर्ग में मरुपु दर अधिक पायी गई है। तभी गंभीर और मध्यम श्रेणी के उन रोगियों को रेमडेसिविर के इस्तेमाल की सलाह दी गई, जिन्हें ऑक्सीजन पर रखने की जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे रोगियों को प्रोनिंग विधि के इस्तेमाल की सलाह दी है, जिससे वे घर अथवा अस्पताल में भर्ती होते हुए भी चिकित्सीय दृष्टि से सम्मत विधि से ऑक्सीजन लेवल दुरुस्त कर सकते हैं जो ऑक्सीजन किल्लत के बीच राहतकारी हो सकता है। जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत तो हो रही है, उन्हें प्रोनिंग के जरिये ऑक्सीजन लेवल सुधारने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि पेट के बल लेटकर गहरी सांस लेने की प्रोनिंग प्रक्रिया उन लोगों के लिये उपयोगी है जो घर पर ही एकांतवास में सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे चला गया हो। यह विधि 80 फीसदी तक कारगर है। इससे सांस लेने और ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। इतना ही नहीं, आईसीयू में भर्ती मरीजों में भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। गाइडलाइन में बताने की स्थिति में भी कारगर है। इस विधि में पेट के बल लेटकर तकिया इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जिन्हें गर्दन, सीने के नीचे से लेकर जांघ तक तथा पैर के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। बीच-बीच में स्थिति बदलते रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में तीस मिनट से अधिक नहीं रहना चाहिए।

फिल्मों और विज्ञापनों से ज्यादा टीवी को वरियता दूंगी:नारायणी शास्त्री

टीवी शो 'आपकी नजरों ने समझा' में काम कर रही अभिनेत्री नारायणी शास्त्री का कहना है कि उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पसंद है। नारायणी ने कहा कि छोटे पर्दे ने जो उन्हें दिया वह उससे खुश है और वह विज्ञापन और थिएटर और फिल्मों से ऊपर टीवी को ही चुनना पसंद करेगी। उन्होंने कहा, 'मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करती हूँ। मैंने जिस तरह का काम किया है वैसी ही जगह टीवी की दुनिया में बनाई। मैं अपनी इंडस्ट्री से प्यार करती हूँ और फिल्मों, विज्ञापनों या थिएटर से अलग मैं सिर्फ टीवी को ही



चुंगी।' वह कहती हैं कि टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि मुझे किस तरह का काम करना पसंद है। उन्होंने कहा, 'मुझे टीवी में काम करते हुए 20 साल हो गए हैं, इससे लोगों को अंदजा हो गया है कि मैं किस तरह का काम करना चाहती हूँ।' इस बीच अभिनेत्री ने

कहा कि जब वह अच्छा काम करने के लिए तैयार होती हैं, तो उनके मन में सही काम चुनने की हिचक नहीं होती है। वह कहती हैं, 'दो अच्छे प्रोजेक्ट के बीच इंतजार करना आसान नहीं है। एक कलाकार के रूप में आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको अंतर्गमन कहता है कि नहीं इससे न आप खुश होंगे न ही दर्शक।' इससे पहले अभिनेत्री को 'क्यूकी सास भी कभी बहू थी', 'पिया का घर' और 'नमक हाराम' जैसे शो में देखा गया था।

अंधेरे समय के दौरान राजनीति, धर्म को अलग रखें: सैयामी

भिनेत्री सैयामी खेर ने सभी से राजनीति और धर्म को अलग रखने का अनुरोध किया, क्योंकि हम महामारी के कारण मानव इतिहास के सबसे अंधेरे चरणों में से एक से गुजरते हैं। सैयामी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया, हम मानव इतिहास में सबसे काला समय देख रहे हैं। कृपया राजनीति और धर्म को दूर रखें और सिर्फ थोड़ी सी मानवता दिखाएं। मदद करने के लिए उनका करें जितनी हमारी क्षमता हो। हर अजनबी किसी न किसी से प्यार करता है। कुछ दिन पहले सैयामी ने सोशल मीडिया पर यह जाहिर



किया कि वह यात्राओं और सामान्य जीवन को याद करती हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते लिखा था, महात्मा गांधी का एक उद्धरण याद आता है- जैसा कि मैं उस समय को याद करता हूँ, जब हम अपना बैग चुन सकते थे और जहाँ जी चाहे, जा सकते थे। याद रखें, यह समय भी गुजरेगा।

शब्द सामर्थ्य- 61

Word game section with lists of words, a crossword grid, and a 60-letter word puzzle. Words include: बाएं से दायें: 1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रतीस पानी 11. चरमसीमा, रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. 7. निशाचर, रात में विचरण करने मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अन्ध 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश। ऊपर से नीचे 1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के करना, प्रतीस पानी 11. चरमसीमा, रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. 7. निशाचर, रात में विचरण करने शब्द सामर्थ्य क्रमांक 60 का हल

सू-दोक्- 61

Sudoku puzzle section with a 9x9 grid and a 60-letter word puzzle. Grid numbers: 3 7, 9 6 3 8, 7 9 5 6, 1 9, 3 8 7 5, 2 4 7 7, 1 3 9 5 6 7, 6 3 5 1 9 4 7 2 8, 7 9 8 5 3 2 6 4 1, 2 4 1 7 8 6 5 3 9, 4 5 3 6 7 9 1 8 2, 9 8 6 2 5 1 3 7 4, 1 7 2 8 4 3 9 5 6.

प्रौद्योगिकी सुरक्षा खर्च में 2021 में शीर्ष पर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत, आईडीसी की एक हालिया रिपोर्ट में किया गया है दावा

नईदिल्ली । कोरोना महामारी के बीच क्लाउड को अपनाते और बड़े पैमाने पर घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) के बढ़े चलन के कारण संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारत ऐसे देश रहे हैं, जिनका वर्ष 2021 के दौरान समग्र सुरक्षा खर्च (ओवरऑल सिक्योरिटी स्पेंडिंग) का 26 प्रतिशत हिस्सा रहने की उम्मीद है। आईडीसी की एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए बड़ी संख्या में व्यवसायों की उपस्थिति के बीच सुरक्षा खर्च के मामले में ऑस्ट्रेलिया और भारत दो सबसे शीर्ष देश बने हुए हैं।



एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2021 के दौरान सुरक्षा हार्डवेयर, सेवाओं और सॉफ्टवेयर पर कुल मिलाकर खर्च 23.1 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है,

जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.6 प्रतिशत अधिक होगा। आईडीसी को उम्मीद है कि सुरक्षा संबंधी उत्पादों और सेवाओं पर पूर्वानुमान अवधि (2019-24) में पांच साल के सीएजीआर में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 2024 तक यह 35 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

आईडीसी आईटी एसोसिएट गाइड्स, कस्टमर इनसाइट्स एंड एनालिसिस में एसोसिएट मार्केट एनालिसिस शरद कोटगी ने एक बयान में कहा, एशिया/प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा-संबंधित उत्पादों और समाधानों (एडवांस्ड सिक्योरिटी, जीपीएन और फायरवॉल) पर निवेश 2021 में दोहरे अंकों की वृद्धि का अनुभव करेगा, क्योंकि दोनों सरकारों और उद्यमों (विशेष रूप से बैंकिंग, दूरसंचार और पेशेवर सेवाएं उद्योग) की ओर से खर्च में वृद्धि होगी। इस वर्ष जिन उद्योगों में सुरक्षा व्यय के लिहाज से सबसे अधिक वृद्धि देखी जा

रही है, उनमें राज्य/स्थानीय सरकार (18.5 प्रतिशत), परिवहन (13.9 प्रतिशत) और खुदरा (13.7 प्रतिशत) शामिल हैं। इसके पीछे का प्रमुख कारण इन दिनों में डेटा सुरक्षा, ई-कॉमर्स, घर से काम और लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट के डिजिटलाइजेशन पर बढ़ता फोकस है। आईडीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े (500-1,000 कर्मचारी) और बहुत बड़े व्यवसायों (1,000 से अधिक कर्मचारी) में 2021 में सुरक्षा से संबंधित खर्च कुल खर्च का दो तिहाई होगा।

वीडियो ट्रांसकोडिंग चिप का निर्माण कर रहा यूट्यूब

नईदिल्ली । गूगल ने वीडियो को और अधिक कुशलता से प्रोसेस करने के लिए यूट्यूब के लिए एक कस्टम चिप आर्गोस विकसित की है। गूगल के जेफ कैलो ने कहा कि आर्गोस चिप ने उनके पिछले ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम की तुलना में कंप्यूटिंग दक्षता में 20 से 33 गुणा सुधार किया है, जो पारंपरिक सर्वर पर सॉफ्टवेयर चला रहा था। वीसीयू पैकेज एक पूर्ण लंबाई वाला पीसीआई-ई कार्ड है और ग्राफिक्स कार्ड की तरह दिखता है। एक बोर्ड में दो आर्गोस एएसआईसी चिप होती हैं, जो एक विशाल, निष्क्रिय रूप से उन्दी एल्यूमीनियम हीट सिंक के नीचे होती हैं।

एआरएस टेक्निका की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 8-पिन पावर कनेक्टर जैसा दिखता है। गूगल ने एक चिप आरेख या डायग्राम प्रदान किया है, जो प्रत्येक चिप पर 10 एनकोड कोर्स को लिस्ट करता है, जिसमें गूगल का श्रेत त्र शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने कहा है कि प्रत्येक एनकोड कोर वास्तविक समय में 2160पी एनकोड कर सकता है। यह 60 एफपीएस (फ्रेम प्रति सेकंड) तीन रेंफ्रेस फ्रेम का उपयोग कर सकता है। गूगल के वेयर-स्केल कंप्यूटिंग सिस्टम में बदलने के लिए विशेष तौर पर कार्ड तैयार किए गए हैं।

कैश निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर अब आपके घर आएगा एटीएम

नईदिल्ली । प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लेंडर एचडीएफसी बैंक ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों और देश के विभिन्न हिस्सों में लोकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू होने के मद्देनजर 19 शहरों में मोबाइल ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) की सुविधा उपलब्ध कराई है। बैंक ने एक बयान में कहा कि मोबाइल एटीएम की सुविधा होने से आम लोगों को नकदी निकालने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मोबाइल एटीएम वैन यानी गाड़ियों पर रखे हुए होंगे। ये अलग-अलग कोविड प्रभावित


क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इनसे कस्टमर्स आसानी से बिना किसी असुविधा के पैसे निकाल सकेंगे। कैश विड्रॉल के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा न रहे इसके लिए पर्याप्त रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ये सुविधा देश के 19 शहरों में दे रहा है। इनमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, लुधियाना जैसे आदि बड़े शहर शामिल हैं, इस सिलसिले में बैंक की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है। बैंक यह मोबाइल एटीएम लोकल प्रशासन के साथ बात करके लगाता है, वहीं



कुछ मामलों में बैंक खुद लोकेशन तलाश लेता है। चूँकि मोबाइल एटीएम से एक क्षेत्र के ज्यादा लोग कैश निकालेंगे, इसलिए उसमें पैसों की कमी न हो इसलिए बैंक इसका ध्यान रखेगा। बैंक की कोशिश है कि एटीएम में बराबर पैसे बने रहें। किसी इल कोई दिक्कत नहीं हो। मोबाइल एटीएम से दिन में 100-150 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। बैंक की यह सुविधा उन लोकेशन पर मिलेगी जो कोविड से बुरी तरह प्रभावित होंगे या कंटेंटमेंट जोन घोषित किए गए होंगे। जहाँ लोगों को बाहर जाने पर प्रतिबंध है। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल एटीएम लगाए जाएंगे।

'तूफान' अमेज़न प्राइम वीडियो पर 21 मई को होगी रिलीज

राकेश ओमप्रकाश मेहरा की तूफान इस वक्त देश की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। हालाँकि, निर्माताओं का मानना है कि यह स्पोर्ट्स ड्रामा वैश्विक दर्शकों की एक विस्तृत संख्या का ध्यान आकर्षित करेगी और इसका श्रेय फिल्म के विषय और अंतर्निहित संदेश को जाता है। फिल्म के बारे में निर्देशक



राकेश ओमप्रकाश मेहरा बताया कि, तूफान एक अंडरडॉग की कहानी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मतभेद पैदा करने के बजाय प्यार फैलाने की कहानी है। हर देश, चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी न किसी मुद्दे से गुजर रहा है और हम सभी का मन चोटिल है। तूफान उन घावों को खरोचने का प्रयास नहीं है, बल्कि सुखदायक बाम लगाने के बारे में है। दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी शख्स, फिल्म के साथ की संबंधित महसूस करेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया, मुक़ेबाजी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है - अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, रूस और यूरोप इत्यादि सभी मुक़ेबाजी देश हैं... इसलिए

दुनिया भर के लोग फिल्म के साथ खुद को जोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि तूफान में महिला नायक की भी बहुत मजबूत और सुखर भूमिका है। जबकि हमने पिछले एक दशक में नारी शक्ति के उदय को देखा है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाना बंद करना होगा कि हम दूसरे लिंग को कैसे देखते हैं और मृणाल का किन्दा और अनन्या ऐसा ही करती है। 'तूफान', रितेश सिधवानी, राकेश ओमप्रकाश मेहरा और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित प्रेरणादायक स्पोर्ट्स ड्रामा का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर 21 मई 2021 को रिलीज होगी।

Sudoku puzzle section with a 9x9 grid and a 60-letter word puzzle. Grid numbers: 3 7, 9 6 3 8, 7 9 5 6, 1 9, 3 8 7 5, 2 4 7 7, 1 3 9 5 6 7, 6 3 5 1 9 4 7 2 8, 7 9 8 5 3 2 6 4 1, 2 4 1 7 8 6 5 3 9, 4 5 3 6 7 9 1 8 2, 9 8 6 2 5 1 3 7 4, 1 7 2 8 4 3 9 5 6.

इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद फायदेमंद है चिकन सूप

इम्यूनिटी बढ़ाने में तरह-तरह के घरेलू नुस्खों से ज्यादा बड़ा रोल खानपान का होता है। सूप एक ऐसा आणखन है जो छोटी-छोटी भूख मिटाने के साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ाता है।



चिकन 200 ग्राम, कॉर्नफ्लोर- 3 बड़े टीस्पून, अंडा- 1, गाजर- 1, टमाटर- 1, लहसुन- 3 कलियां, सिरका- 1 बड़ा टीस्पून, अदरक- 1 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च पाउडर- 1/2 टीस्पून, चिली सांस- जरूरत के मुताबिक, नमक- स्वादानुसार विधि: सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करें। अब एक प्रेशर कुकर में चिकन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और आवश्यकतानुसार पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें और मीडियम आंच पर 20 मिनट तक पका लें। अब गैस बंद कर दें और चिकन को उंडा होने दें। चिकन को अलग करें, जब

चिकन उंडा हो जाए, तब चिकन में से हड्डियों को अलग कर दें। फिर उबले चिकन का पानी लेकर उसमें कॉर्नफ्लोर को घोल लें। चिकन के छोटे-छोटे पीस कर लें। गाजर और टमाटर को भी बारीक काट लें। अब फिर से कुकर गर्म करें और उसमें कॉर्नफ्लोर का घोल, चिकन पीस, गाजर और टमाटर डाल दें और मीडियम आंच पर पांच मिनट तक पकने दें। उसके बाद उसमें अंडा फोड़कर ढालें और लगभग 15 मिनट तक पका लें। जब सूप थोड़ा गाढ़ हो जाए, तब गैस बंद कर दें। इसके बाद उसमें सिरका और चिली सांस डाल दें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें। पांच मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोलें और इसे सर्विंग बाउल में निकालकर गरमा-गरम सर्व करें।

आज का राशिफल

शुक्र- एकाएक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लापरवाही न करें। दूर से दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यर्थ दौड़धूप होगी। विवाद से स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। बुध- प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। व्यापार-व्यवसाय मनुकुल लाभ देगा। लाभ देगा। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। शिव- रिजल्टस्वर्यो ज्यादा होगी। शुभ भय रहेगा। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुर्ब- अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं। शनि- कोई बड़ा खर्च एकाएक सामने आएगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। कुसंगति से बचें। किसी व्यक्ति के काम की जवाबदारी न लें। स्वयं के काम पर ध्यान दें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। कुम्भ- घर के छोटे सदस्यों संबंधी चिंता रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्याध वास्तु की प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अक्सर हाथ आएं। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। तुला- नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुख के साधन जुटेंगे। लाभ के अक्सर हाथ आएं। बुध- वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय सताएगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी। शुक्र- स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। विवाद से क्लेश हो सकता है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। मकर- कानूनी अडचन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि अपमान हो। कुम्भ- नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं। सुख के साधन जुटेंगे। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बड़े सोपे बड़ा लाभ दे सकते हैं। शनि- विवेक का प्रयोग करें। समस्याएं कम होंगी। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय रहेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा।